



बिदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष ४  
मास ४८ अंक ९५)

बिदेह मासपत्रिका बिदेह  
बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका बिदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका बिदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका बिदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका बिदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर

बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
ISSN 2229-547X VIDEHA

गान्धीमिह संस्कृतम्

२५: ...

२५: ...

२६:१: ...

२७: ...

२८:१: ...

३: ...



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA

मासुमिह

- ३०१३: ... २० ...
- ३०२३: ...
- ३०३३: ... २० ...
- ३०४३: ... २० ...
- ३०५३: ... २० ...
- ३०६३: ... २० ...
- ३०७३: ... २० ...
- ३०८३: ... २० ...
- ३०९३: ... ३० ...
- ३१०३: ... ३० ...



४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

गांधीमिह संस्कृतम्

७५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५

५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५

६ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५

७ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५

५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५

५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५

५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५

५

५

५

५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५

५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५

५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५

५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५

५

५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५

५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५

५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५







२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X, VIDEHA

संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००

संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००

१५ संस्कृतम्

१

संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००

संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००  
संस्कृतम् १२००







२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) **२०११** अंक ०१ दिसम्बर  
१५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११

**१ अक्टूबर २०१२** तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२-१३ : १५ दिसम्बर २०१२ तः १५

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२  
१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२  
१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२  
१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२  
१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२  
१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर १२ : १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२  
१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२  
१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२  
१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२  
१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२  
१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२  
१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२

१५ दिसम्बर २०१२ तः १५ दिसम्बर २०१२





२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X, VIDEHA

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

२०१२ म. अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

२०१० म. २०११ म. संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१

संस्कारक २०११ अंक ०१ म अंक ०१ म अंक ०१



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पश्चिम 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

१ अंक २०१२

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पश्चिम 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष  
१ अंक २०१२

१ अंक २०१२

२०१०-११

२०१०

२०११

२०११-१२

२०११-१२

२०११

२०११

२०११

२०११

२०११

२०११

२०१२

२०१२

२०१२

२०१२

२०१२





४ मास ४८ अंक १५ <http://www.videha.co.in>

गान्धीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

131 1313 13 13 1313131313 13131313 13131313  
 1313 1313 13 131313 131313 1313 13 131313  
 131313 1313 131313 131313 13 1313 13 131313  
 1313 13

131313  
 13 131313 13 131313  
 1313 131313 13131313 13131313 1313 131313  
 1313 131313

131313 3 131313131313 13131313  
 131313131313 2600 131313131313 1313131313  
 13131313 13131313 13131313 13131313 13 1313 1313  
 1313 1313

13 13131313 1313 1313 13 131313131313 13131313  
 13 13131313 13131313 13131313 1313 13131313  
 131313131313 131313131313 131313131313 1313131313  
 131313131313 131313131313 131313131313 131313131313  
 131313131313 131313131313 131313131313 131313131313  
 131313131313 131313131313 131313131313 131313131313  
 131313131313 131313131313 131313131313 131313131313  
 131313131313 131313131313 131313131313 131313131313  
 131313131313 131313131313 131313131313 131313131313



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>  
 संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीय

:: ::

::

:: ::

::

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका २००८) के मंगल अंक

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका २००८) के मंगल अंक  
 विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका २००८) के मंगल अंक  
 विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका २००८) के मंगल अंक

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका २००८) के मंगल अंक  
 विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका २००८) के मंगल अंक  
 विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका २००८) के मंगल अंक  
 विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका २००८) के मंगल अंक  
 विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका २००८) के मंगल अंक  
 विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका २००८) के मंगल अंक  
 विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका २००८) के मंगल अंक  
 विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका २००८) के मंगल अंक  
 विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका २००८) के मंगल अंक  
 विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका २००८) के मंगल अंक

:: ::

::



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

www.videha.co.in

४३ ३४

२१ (१९५४) ३०

आँ



बि एन ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम ऐथिली पात्रिका अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मानसमिह

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA

:: ::

::

::

::

:: :: :: ::

::

एतत्संस्कृतम् पत्रिका १५ नवम्बर २००४ तः प्रकाशिता

संस्कृतम् पत्रिका १ ९६२ संस्कृतम् ७० ३९८ संस्कृतम्

संस्कृतम् पत्रिका ३ ३१ ७७९ संस्कृतम्

संस्कृतम् पत्रिका ३ ३१ ७७९ संस्कृतम्

संस्कृतम् पत्रिका ३ ३१ ७७९ संस्कृतम्

संस्कृतम् पत्रिका ३ ३१ ७७९ संस्कृतम्

::

::

::

::



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
**ISSN 2229-547X VIDEHA**

**मैथिलीमिह संस्कृतम्**

**२०:** बिहार

**२०१:** बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका  
 बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका  
 " बिहार " बिहार

**२०२:** बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका  
 बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका

**२०३:** बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका

**२०४:** बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका  
 बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका  
 बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका

**२०५:** बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका

**२०६-१:** बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका  
 बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका

**२०७:** बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका

**२०८-१:** बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका  
 बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका **२०**  
 बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका **३०** बिहार पत्रिका बिहार पत्रिका



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मातृसिंह

चंस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

एकमासः अंकोऽयं नवमः सः, सन् २०११-१२  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 भारतीयः एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः

एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः

एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः  
 एकादशः एतेः अङ्काः अस्मिन् अङ्के एकादशः अङ्काः



४ मास ४८ अंक १५ <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह चन्द्रका

ISSN 2229-547X **VIDEHA**

पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका बिदेह 1st Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'बिदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष  
४ मास ४८ अंक १५ <http://www.videha.co.in>  
मानवीसिंह चन्द्रका

१३

पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका बिदेह 1st Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'बिदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष  
४ मास ४८ अंक १५ <http://www.videha.co.in>  
मानवीसिंह चन्द्रका

पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका बिदेह 1st Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'बिदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष  
४ मास ४८ अंक १५ <http://www.videha.co.in>  
मानवीसिंह चन्द्रका









४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

बि एन एरु विदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम यैथिती पक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष
४ मास ४८ अंक ९५) http://www.videha.co.in
ISSN 2229-547X VIDEHA
मानवीमिह संस्कृतम्









२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in> **संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA** **गातृभिर्देह**

२५ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२  
अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२  
अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२  
अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२  
अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२  
अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२  
अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२  
अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२  
अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२  
अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२ अंक १०१२

२६ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३  
अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३  
अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३  
अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३  
अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३  
अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३ अंक १०१३



४ मास ४८ अंक १५ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

बि एन रु विदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक 'विदेह' १५ म अंक०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

४५ विदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक 'विदेह' १५ म अंक०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

४६ विदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक 'विदेह' १५ म अंक०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

४७ विदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक 'विदेह' १५ म अंक०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष





४ मास ४८ अंक १५ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

*[The following text is a dense, repetitive block of characters that appears to be a corrupted or illegible scan of a document. It consists of many lines of text that do not form recognizable words or sentences.]*









२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

मासगिह

खरकाम, ISSN 2229-547X VIDEHA

बिदेह १५ अंक ०१ दिसम्बर २०११

बिदेह १५ अंक ०१ दिसम्बर २०११

बिदेह १५ अंक ०१ दिसम्बर २०११



४ मास ४८ अंक १५ <http://www.videha.co.in>

मानवीय चिन्तन

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

मासुबिह

खंखुआम ISSN 2229-547X VIDEHA

द्वैमासिक पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर

• ...

१५ ...

२५ ...











४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

माथीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम यैथिती पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम यैथिती पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम यैथिती पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष











४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

बिहार विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम ऐथिली पाक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

बिहार विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम ऐथिली पाक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

बिहार विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम ऐथिली पाक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

बिहार विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम ऐथिली पाक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

**१९६३**

- # बिहार विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
- । बिहार विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
- । बिहार विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
- । बिहार विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
- । बिहार विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका





४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

मानवीय चिन्तन

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>











४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

माथिली संस्कृत

ISSN 2229-547X VIDEHA

Main body text of the page, consisting of multiple lines of text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to the quality of the scan and the bleed-through effect.































४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000









२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

खंक्रान्तम् ISSN 2229-547X VIDEHA

बिहार विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम द्वायिनी पक्षिक ई पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह प्रथम ऐथिली पक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५ http://www.videha.co.in ISSN 2229-547X VIDEHA)





४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.





४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
ISSN 2229-547X VIDEHA

गान्धीमिह संस्कृतम्

विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह संस्कृत संस्थान द्वारा किया जाता है।  
संपादक: विदेह संस्कृत संस्थान, विदेह

१

विदेह संस्कृत संस्थान द्वारा विदेह पत्रिका का सम्पादन किया जाता है।  
संपादक: विदेह संस्कृत संस्थान, विदेह

विदेह संस्कृत संस्थान द्वारा विदेह पत्रिका का सम्पादन किया जाता है।  
संपादक: विदेह संस्कृत संस्थान, विदेह

विदेह संस्कृत संस्थान द्वारा विदेह पत्रिका का सम्पादन किया जाता है।  
संपादक: विदेह संस्कृत संस्थान, विदेह

विदेह संस्कृत संस्थान द्वारा विदेह पत्रिका का सम्पादन किया जाता है।  
संपादक: विदेह संस्कृत संस्थान, विदेह























२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

मानवीविह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

बिहार विदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम दोधिनो पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
वर्ष ४ मास ४८ अंक १५ <http://www.videha.co.in>  
संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA  
मानवीविह

## २

विदेह विदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम दोधिनो पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
वर्ष ४ मास ४८ अंक १५ <http://www.videha.co.in>  
संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA  
मानवीविह







४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका बिदेह प्रथम यैथिती पक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

५

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका बिदेह प्रथम यैथिती पक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA

एतत् पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
 विदेह प्रथम द्वायिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
 २०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>  
 संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA  
 मानसिंह

६

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
 विदेह प्रथम द्वायिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
 २०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>  
 संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA  
 मानसिंह

४

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
 विदेह प्रथम द्वायिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर













४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
**ISSN 2229-547X VIDEHA**

मानवीसिंह चन्द्रका

विदेह ९५ अंक ०१ दिसम्बर २०११ म ३०० पन्नासः  
 विदेह ९५ अंक ०१ दिसम्बर २०११ म ६००० पन्नासः  
 विदेह ९५ अंक ०१ दिसम्बर २०११ म १००००० पन्नासः  
 विदेह ९५ अंक ०१ दिसम्बर २०११ म ३०० पन्नासः  
 विदेह ९५ अंक ०१ दिसम्बर २०११ म ५१६ पन्नासः  
 विदेह ९५ अंक ०१ दिसम्बर २०११ म १ पन्नासः  
 विदेह ९५ अंक ०१ दिसम्बर २०११ म ३६०० पन्नासः  
 विदेह ९५ अंक ०१ दिसम्बर २०११ म १३६००० पन्नासः









३५३: विदेह विदेह विदेह २: विदेह विदेह विदेह

३५: विदेह विदेह विदेह, विदेह विदेह,

३५५: विदेह विदेह २ विदेह विदेह ३५ विदेह विदेह

विदेह विदेह ४: विदेह विदेह विदेह

३५६: विदेह विदेह विदेह २: विदेह विदेह

विदेह

३५७: विदेह विदेह विदेह २ विदेह विदेह विदेह

३५८: विदेह विदेह विदेह २: विदेह विदेह

विदेह विदेह

१: विदेह विदेह २: विदेह विदेह

१

विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह





४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

गान्धीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

मन्त्रालय, विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत  
पत्रिका, विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत  
पत्रिका, विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत

विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत  
पत्रिका, विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत  
पत्रिका, विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत

विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत  
पत्रिका, विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत  
पत्रिका, विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत

विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत  
पत्रिका, विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत  
पत्रिका, विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत

विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत  
पत्रिका, विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत  
पत्रिका, विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत

२

मन्त्रालय

विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत  
पत्रिका, विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत

विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत  
पत्रिका, विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत

विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत  
पत्रिका, विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत

विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत  
पत्रिका, विदेह, दरभंगा, बिहार, भारत





२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X, VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

संस्कृतम्

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका २०

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीय चिन्तन

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह ९५

विदेह ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष



॥ ॥  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११

॥ ॥  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११  
१११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११



विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका  
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

पृष्ठ २०

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका  
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका  
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका  
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका  
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका  
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

पृष्ठ २१





४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
ISSN 2229-547X VIDEHA

गान्धीमिह संस्कृतम्

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह

विदेह ३८

—

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह ३९

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह





४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीमिह संस्कृतम्

पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक  
पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक

पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक  
पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक

पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक  
पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक

पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक  
पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक

पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक  
पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक

पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक  
पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक

२

पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक  
पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक

पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक  
पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक

पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक  
पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक

पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक  
पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक





२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>  
संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA

मानसिंह

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम दैयिनी गणिकर अ पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम दैयिनी गणिकर अ पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम दैयिनी गणिकर अ पत्रिका

### २

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम दैयिनी गणिकर अ पत्रिका  
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम दैयिनी गणिकर अ पत्रिका  
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम दैयिनी गणिकर अ पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम दैयिनी गणिकर अ पत्रिका  
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम दैयिनी गणिकर अ पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम दैयिनी गणिकर अ पत्रिका  
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम दैयिनी गणिकर अ पत्रिका

### ३

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम दैयिनी गणिकर अ पत्रिका  
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम दैयिनी गणिकर अ पत्रिका  
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम दैयिनी गणिकर अ पत्रिका  
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम दैयिनी गणिकर अ पत्रिका







४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीमिह संस्कृतम्

म० वि० १११  
म० वि० १११  
म० वि० १११  
म० वि० १११

म० वि०  
म० वि०  
म० वि० १११  
म० वि० १११

म० वि० १११  
म० वि० १११  
म० वि० १११  
म० वि० १११  
म० वि० १११

म० वि०  
म० वि०  
म० वि०  
म० वि०  
म० वि०

म० वि०  
म० वि०  
म० वि०  
म० वि०  
म० वि०

### ४

म० वि०  
म० वि०  
म० वि०  
म० वि०  
म० वि०  
म० वि०  
म० वि०  
म० वि०



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका

संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका

संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका

संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका

१५ दिसम्बर २०११ अंक ९५ २०११

संस्कृतम् पत्रिका

१५

संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका

संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका

संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका  
संस्कृतम् पत्रिका



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

गान्धीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

संस्कृत १०१ : १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१

संस्कृत १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१

संस्कृत १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१

२ :

संस्कृत १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१

संस्कृत १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१

संस्कृत १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१  
 १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका

विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका

विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका

विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका

विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका

विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका  
 विदेहः पत्रिका विदेहः पत्रिका



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह





२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मानवीय

खंखुआम, ISSN 2229-547X VIDEHA

११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११ ११११ ११११ ११११

११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११ ११११ ११११ ११११

### ३

११११ ११११ ११११ ११११ ११११

११११ ११११  
 ११११ ११११

११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११

११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११

११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११

११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११ ११११ ११११ ११११

११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११  
 ११११ ११११ ११११ ११११

११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

गान्धीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

३

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५)<http://www.videha.co.in>

मैथिली

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X, VIDEHA

१२३४५ ६ ७८ ९१० १११२ १३१४ १५

१६१७ १८१९ २० २१ २२ २३ २४ २५  
२६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५

३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५  
४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५

५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५

६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५

## ४

• १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५

१६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५  
३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५

५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५  
७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५

९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५  
११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५

१३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५  
१५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५

१७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५  
१९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

१५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५

१५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५

१

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12







२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

खरकूतम, ISSN 2229-547X VIDEHA

पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine  
विदेह अथय द्येथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine  
विदेह अथय द्येथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine  
विदेह अथय द्येथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine  
विदेह अथय द्येथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह







४ मास ४८ अंक १५ <http://www.videha.co.in>

गान्धीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

००००० ००००० ००००० ०००००  
०००० ००००० ०००००० ००००० ०००००  
०००० ०००० ००००० ०००००००  
०००० ००००००० ००००० ००००००  
००० ०००० ०००००० ००००००  
०००० ००००००० ००००००० ००००००  
००००० ००००००० ००००००० ००००००  
००००००० ०००००००० ००००००००  
०००००००० ००००००००० ०००००००००  
००००००००० ०००००००००० ००००००००००  
०००००००००० ००००००००००० ०००००००००००  
००००००००००० ०००००००००००० ००००००००००००  
०००००००००००० ००००००००००००० ०००००००००००००  
००००००००००००० ०००००००००००००० ००००००००००००००  
०००००००००००००० ००००००००००००००० ०००००००००००००००  
००००००००००००००० ०००००००००००००००० ००००००००००००००००  
०००००००००००००००० ००००००००००००००००० ०००००००००००००००००  
००००००००००००००००० ०००००००००००००००००० ००००००००००००००००००  
०००००००००००००००००० ००००००००००००००००००० ०००००००००००००००००००  
००००००००००००००००००० ०००००००००००००००००००० ००००००००००००००००००००  
००००००००००००००००००००० ००००००००००००००००००००० ०००००००००००००००००००००  
०००००००००००००००००००००० ००००००००००००००००००००००० ०००००००००००००००००००००००





४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

माथुमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000















४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

पुस्तकालय विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :

पत्रिका विभाग

पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :

२

पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :

पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :  
 पत्रिका विभाग, पटना १ :



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

गान्धीमिह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

न ०००० ०००  
 ००० ०००० ००००  
 ००० ००००  
 ००० ०००० ००००  
 ००० ००००० ००००००  
 न ०००० ००००  
 ०००० ००००० ०००००  
 ००० ००००० ०००००  
 ०००००० ००००  
 ०००० ००००० ०००००  
 ०००००० ०००००००  
 न ००००० ०००००  
 ०००००० ०००००००  
 ००००००००००  
 ००००० ००००००० ००००००  
 ००००० ०००००० ०००००  
 न ००००० ०००००  
 ००००० ०००००० ०००००  
 ०००००० ००००  
 ००००००० ०००००० ०००००  
 ०००००० ००००००००००  
 न ०००००० ०००००  
 ०००० ०००० ००००००००  
 ०००० ००००  
 ०००००० ०००००० ००००००



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

गान्धीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११

विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११

विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११

विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११

विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११

विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११

विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११

विदेह १९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

गान्धीमिह

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X, VIDEHA

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीमिह संस्कृतम्

०००० ०० ००० ००००

० ०००० ०००  
०००० ०० ००००००  
०००० ०००  
००० ००००००  
००० ०० ००००००००

० ०००००० ००००  
०००० ००००००  
०००० ००००  
० ०००० ०० ०००००  
०००० ००० ००००००

० ०००० ०००००  
००००० ००००० ००  
००००००० ००००  
००० ०००० ००००  
००० ०००० ०००००

० ००००० ०० ००००  
००० ०००० ००० ००  
०००० ०००  
००००० ०० ०००० ०००  
०० ००० ०० ००००

० ००० ००००००  
००० ०००० ००००  
०००० ०००००  
०० ००००००० ००००  
०० ००० ०००००००

० ००००००० ००० ००००००

० ०० ००००००

१० ००. ००००० ०००० २ ०००० ००००० ०००

१०





४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह चन्द्रकाश

ISSN 2229-547X VIDEHA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12







४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
**ISSN 2229-547X VIDEHA**

मानवीमिह संस्कृतम्

१३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३  
 ३३३ ३३३ ३३३ ३३३  
 ३३३ ३३३ ३३३ ३३३  
 ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३  
 ३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३  
 ३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३  
 ३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३३३ ३३३ ३३३ ३३३  
 ३३३ ३३३ ३३३ ३३३  
 ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३३३ ३३३ ३३३ ३३३  
 ३३३ ३३३ ३३३ ३३३  
 ३३३ ३३३ ३३३ ३३३  
 ३३३ ३३३ ३३३ ३३३  
 ३३३ ३३३ ३३३ ३३३  
 ३३३ ३३३ ३३३ ३३३  
 ३३३ ३३३ ३३३ ३३३  
 ३३३ ३३३ ३३३ ३३३  
 ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३ ३३३३३३ ३३३ ३३३३३

३ ३३३३३३ ३३३ ३३३ ३३३३३३

३३३ ३३३३३३ ३३३ ३३३ ३३३३३३ ३३३३३३  
 ३३३३३३

३३

३३३३३३ ३३३ ३३३३३३  
 ३३३३ ३३३३३३ ३३३३३३ ३३३३३३  
 ३३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३३३



१. अतः १०४ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ २

१०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२

१. अतः १०४ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ २

१०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२

१. अतः १०४ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ २

१०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२

१. अतः १०४ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ २

१०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२

१. अतः १०४ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ २

२

१०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२  
 १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२ १०७२



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

गान्धीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

०००० ००००००

०००००

०००००  
०००००  
००००० ००००० ००००० ०००००  
००००० ००००० ००००० ०००००  
००००० ००००० ००००० ००००००००  
००००० ००००० ००००० ००००० ०  
००००० ००००० ०००००० ०००००

००००० ००००० ००००० ०००००  
००००० ००००० ००००० ००००००००  
००००० ०००००० ००००० ०००००  
००००० ००००० ००००० ००००००००  
००००० ०००००००००००००००००००

० ०००००० ०००००० ०००००  
००००० ००००० ००००० ०००००  
००००० ०००००० ००००० ००००००  
००००००००००० ० ००००० ००००००  
००००० ००००० ००००० ००००००  
००००० ०० ००००० ००००० ०००००  
००००० ०००००००००००००००००००

०००००० ०००००० ००००  
००००० ० ००००० ००००  
००००० ०००० ००००० ०००००  
००००० ०००० ०००० ००००००  
००००० ००००००००० ००००००  
००००० ००००० ०००००० ००००००  
००००० ०००००० ००००० ००००००  
००००० ००००० ००००० ००००० ०००००० ००००००

० ००००००० ००० ००००००  
० ०००००००



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X, VIDEHA

विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर

१५ मासिक पत्रिका विदेह २५ दिसम्बर २०११  
विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर

१५  
मासिक पत्रिका विदेह  
विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर

२५ दिसम्बर २०११

३५ दिसम्बर २०११  
विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
विदेह प्रथम ऐथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर



४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>  
**ISSN 2229-547X VIDEHA**

मानवीमिह संस्कृतम्

**४**

उपरोक्त विषय पर  
परिचित विचारों के अभाव में  
परिचित विचारों के अभाव में  
“ “ “

**५**

उक्त विचारों  
परिचित विचारों के अभाव में  
परिचित विचारों के अभाव में  
परिचित विचारों के अभाव में  
परिचित विचारों के अभाव में  
परिचित विचारों के अभाव में  
परिचित विचारों के अभाव में  
“ “ “

उपरोक्त विषय पर  
“ “ “

उक्त विचारों के अभाव में  
परिचित विचारों के अभाव में  
परिचित विचारों के अभाव में  
परिचित विचारों के अभाव में

उक्त विचारों के अभाव में  
परिचित विचारों के अभाव में  
परिचित विचारों के अभाव में

उक्त विचारों के अभाव में



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

१. विदेह १५ अंक ०१

२. विदेह (१५ अंक) - १५ अंक ०१

३. विदेह आँ - १५ अंक ०१

४. विदेह - १५ अंक ०१

### ४११५४

५. विदेह - १५ अंक ०१

६. विदेह १५ अंक ०१

७. विदेह १५ अंक ०१

८. विदेह १५ अंक ०१

९. विदेह १५ अंक ०१

१०. विदेह १५ अंक ०१

११. विदेह १५ अंक ०१

१२. विदेह १५ अंक ०१

१३. विदेह १५ अंक ०१







२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

गान्धीविह

खंस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA

१. विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह ॥

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

६. विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह ॥

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह

७. विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह ॥

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह  
विदेह विदेह

८. विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह ॥

९. विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह ॥

१०. विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

२२ (पृष्ठ २२)



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीय चिन्तन

॥ ... ॥

॥ ... ॥

॥ ... ॥

ॐ ... ॐ





४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम ऐथिली पक्षिक 'विदेह' १५ म अंक०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष  
४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>  
ISSN 2229-547X VIDEHA  
मानवीमिह संस्कृतम्





४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम यैथिनी पौष्किक 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम यैथिनी पौष्किक 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम यैथिनी पौष्किक 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह पत्रिका

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम यैथिनी पौष्किक 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम यैथिनी पौष्किक 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम यैथिनी पौष्किक 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम यैथिनी पौष्किक 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष





४ मास ४८ अंक १५ <http://www.videha.co.in>

मानवीय संस्कृत

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili  
Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

२५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili  
Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

३५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili  
Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

४५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११  
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili  
Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष





२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>  
संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीय

१. बिदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम यैथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

२. बिदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम यैथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

३. बिदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम यैथिनी पक्षिक अ पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर  
संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA









२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

मानसमिह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

१. विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

३. विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

४. विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

५. विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

६. विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

७. विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

८. विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

१५. ... ..  
... ..  
... ..  
... ..

१०. ... ..  
... ..  
... ..  
... ..

११. ... ..  
... ..  
... ..

१२. ... ..  
... ..

१३. ... ..  
... ..  
... ..  
... ..

१४. ... ..  
... ..  
... ..

१५. ... ..  
... ..  
... ..









२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in> **मासुवैमिह**

खरकूतम **ISSN 2229-547X VIDEHA**

अः सः विदेहाय नमः  
नमः सः विदेहाय नमः  
नमः सः विदेहाय नमः

**औ**

अः सः विदेहाय नमः  
नमः सः विदेहाय नमः  
नमः सः विदेहाय नमः

**इ**

अः सः विदेहाय नमः  
नमः सः विदेहाय नमः  
नमः सः विदेहाय नमः











४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

१. कविता २. कविता ३. कविता ४. कविता  
५. कविता ६. कविता ७. कविता ८. कविता

२. कविता  
३.

३. कविता ४. कविता ५. कविता ६. कविता ७.  
८. कविता ९. कविता १०. कविता

४. कविता ५. कविता ६. कविता ७. कविता ८.  
९.

५. कविता ६. कविता ७. कविता ८. कविता ९.  
१०. कविता ११. कविता १२. कविता १३. कविता

६. कविता  
१. कविता २. कविता ३. कविता ४. कविता ५. कविता

७. कविता ८. कविता ९. कविता १०. कविता ११. कविता १२.  
१३.  
१४. कविता

८. कविता ९. कविता १०. कविता ११. कविता १२. कविता १३. कविता १४. कविता १५.  
१६.

१०. कविता ११. कविता

११. कविता १२. कविता १३. कविता

२. कविता ३. कविता ४. कविता ५. कविता ६. कविता

१३. कविता १४. कविता १५. कविता १६. कविता

१४. कविता  
१. कविता २. कविता ३. कविता ४. कविता ५. कविता

१५. कविता १६. कविता १७. कविता १८. कविता १९. कविता



मानसिंह

२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

१६ : ०१११ ०१११ ०१११ ०१११

१७ : ०११०

०११०

१८ :

०११० ०११० ०११० ०११०

१९ : ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०१

२०

० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

२१ : ०१.०१ ०१.०१ ०१.०१ ०१.०१

२२ :

०१ ०१, ०१ २३ ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०१

२४ : ०१०१ ०१०१ ०१०१ ०१०१

२५ : ०१०१. ०१०१.

२६ : ०१

०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०१

२७ : ०१०१ ०१०१

१०१ १०१ १०१०१ १०१०१ १०१ १०१  
०१०१, १०१०१ १०१०१

२८ : ०१०१ ०१०१ ०१, ०१, ०१०१ ०१०१

२९ :

१० १०१० ०१ १० १०१० ०१

३० : ०१ ०१, ०१.

३१ : १०१० १०१० १०१ १०१०

१०१० १०१० १०१ १०१



४ मास ४८ अंक १५ <http://www.videha.co.in>

गान्धीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३

३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३

३३ ३३

३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३

३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४

३५ ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ ३५

३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६

३६ ३६

३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६

३८ ३८ ३८ ३८ ३८ ३८ ३८ ३८ ३८ ३८ ३८ ३८ ३८ ३८ ३८ ३८ ३८ ३८

३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९

४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४०

४१ ४१

४१ ४१ ४१ ४१ ४१ ४१ ४१ ४१ ४१ ४१ ४१ ४१ ४१ ४१ ४१ ४१ ४१ ४१

४२ ४२ ४२ ४२ ४२ ४२ ४२ ४२ ४२ ४२ ४२ ४२ ४२ ४२ ४२ ४२ ४२ ४२

४३ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३

४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४  
४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४

४५ ४५

४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५

४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६

४७ ४७ ४७ ४७ ४७ ४७ ४७ ४७ ४७ ४७ ४७ ४७ ४७ ४७ ४७ ४७ ४७ ४७

४७ ४७

४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८ ४८





२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA

गान्धीविह

- ४९ :
- ५० :
- ५१ :
- ५२ :
- ५३ :
- ५४ :
- ५५ :
- ५६ :
- ५७ :
- ५८ :
- ५९ :
- ६० :
- ६१ :
- ६२ :
- ६३ :
- ६४ :
- ६५ :



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीमिह संस्कृतम्

६६ : , . . . . .

६७ : . . . . .

६८ : . . . . .

६९ : . . . . .

७० :

. . . . .

७१ :

. . . . .

७२ :

. . . . .

७३ : . . . . .

७४ : . . . . .

७५ :

. . . . .

७६ :

. . . . .

७७ : . . . . .

. . . . .

७८ : . . . . .

७९ :

. . . . .

८० : . . . . .

८१

. . . . .



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

- ८२ : ...
- ८३ : ...
- ८४ : ...
- ८५ : ...
- ८६ : ...
- ८७ : ...
- ८८ : ...
- ८९ : ...
- ९० : ...
- ९१ : ...
- ९२ : ...
- ९३ : ...
- ९४ : ...
- ९५ : ...
- ९६ : ...
- ९७ : ...
- ९८ : ...
- ९९ : ...
- १०० : ...



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीमिह संस्कृतम्

१०१ :

१०२ :

१०३ :

१०४ :

१०५ :

१०६ :

१०७ :

१०८ :

१०९ :

११० :

१११ :

११२ :

११३ :

११४ :

११५ :

११६ :

११७ :

११८ :

११९ :

१२० :

१२१ :

१२२ :



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

गान्धीविदेह

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA

११७ : १६११ १६१३

११८ :

११९ : १६११ १६१३ १६१५

१२० :

१२१ :

१२२ :

१२३ :

१२४ :

१२५ :

१२६ :

१२७ :

१२८ :

१२९ :

१३० :

१३१ :

१३२ :

१३३ :

१३४ :

१३५ :

१३६ :

१३७ :

१३८ :

१३९ :

१४० :



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीमिह संस्कृतम्

१३३ : १०० १०१ १०२ १०३

१३४ : १०४ १०५ १०६ १०७

१३५ : १०८ १०९

१३६ : १०९ ११०

१३७ : १११ ११२

१३८ : ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२०

१३९ : १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८

१४० : १२९ १३०

१४१ :

१४२ : १३१ १३२ १३३ १३४

१४३ : १३५ १३६ १३७ १३८

१४४ :

१४५ : १३९ १४०

१४६ : १४१ १४२

१४७ :

१४८ : १४३ १४४

१४९ :

१५० : १४५ १४६

१५१ : १४७ १४८ १४९ १५०

१५२ :

१५३ :

१५४ :

१५५ :

१५६ : १५१ १५२ १५३ १५४



बिहारी

२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X, VIDEHA

१४८ : अक्षर

१४९ : अक्षर अक्षर

१५० : अक्षर अक्षर

१५१ : अक्षर अक्षर

१५२ : अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर  
अक्षर

१५३ : अक्षर

अक्षर

१५४ : अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर

१५५ : अक्षर

अक्षर

१५६ : अक्षर अक्षर

१५७

अक्षर अक्षर

१५८ : अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर

१५९ : अक्षर अक्षर

१६० :

अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर

१६१ : अक्षर अक्षर

१६२ :

अक्षर अक्षर

१६३ : अक्षर अक्षर अक्षर

१६४ : अक्षर अक्षर अक्षर



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीमिह संस्कृतम्

१६५ : १०१११

१६६ : १०११ १०११ १०११

१६७ : १०१ १०११

१६८ :

१०११,

१६९ : १०१११११ १०११११

१७० : १०११

१७१ :

१०११ १०११

१७२ :

१०१११ १०१११

१७३ : १०१११११

१७४ : १०१११

१७५ : १०११ १०११

१७६ : १०११११ १०१११११ १०११११११

१७७ : १०११११ १०११११

१७८ :

१०१११११ १०१११११११

१७९ : १०१११११

१८० : १०११११११ १०११११११

१८१ :

१०११११११ १०१११११११

१८२ : १०११११११११ १०१११११११११ १०११११११११





१८३ :

।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।

१८४ :

।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।

१८५ : ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।

१८६ : ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।

१८७ : ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।

।।।।।।।।।।

१८८ : ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।

।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।

१८९ : ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।

१९० :

।।।।।।।।।।

१९१ : ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।

।।।।।।।।।।

१९२ : ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।

१९३ :

।।।।।।।।।।

१९४ :

।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।

।।।।।।।।।।

१९५ : ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।

१९६ : ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।

१९७ : ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।

।।।।।।।।।।



- १९८ : अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर  
 १९९ : अक्षर अक्षर  
 २०० : अक्षर अक्षर  
 २०१ : अक्षर  
 २०२ : अक्षर अक्षर  
 २०३ :  
 अक्षर अक्षर  
 २०४ : अक्षर अक्षर अक्षर  
 २०५ : अक्षर अक्षर  
 २०६ : अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर  
 २०७ : अक्षर अक्षर  
 अक्षर अक्षर  
 २०८ : अक्षर अक्षर अक्षर  
 २०९ : अक्षर अक्षर  
 २१० : अक्षर  
 २११ :  
 अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर २१२ : अक्षर अक्षर  
 २१३ : अक्षर अक्षर  
 २१४ : अक्षर अक्षर  
 २१५ : अक्षर  
 २१६ : अक्षर  
 अक्षर



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

मधुसूदन

२१७

२१८

२१९

२२०

२२१

२२२

२२३

२२४

२२५

२२६

२२७

२२८

२२९

२३०

२३१

२३२

२३३

२३४

२३५



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीमिह संस्कृतम्

२३६

२३७

२३८

२३९

२४०

२४१

२४२

२४३

२४४

२४५

२४६

२४७

२४८

२४९

२५०

२५१

२५२

२५३

२५४

२५५

२५६

२५७

२५८

२५९

२६०

२६१

२६२

२६३

२६४

२६५

२६६

२६७

२६८

२६९

२७०



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मासुपिदिह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

२५४

२५५

२५६

२५७

२५८

२५९

२६०

२६१

२६२

२६३

२६४

२६५

२६६

२६७

२६८

२६९

२७०

२७१

२७२



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीमिह संस्कृतम्

२७२  
 २७३  
 २७४  
 २७५  
 २७६  
 २७७  
 २७८  
 २७९  
 २८०  
 २८१  
 २८२  
 २८३  
 २८४  
 २८५  
 २८६  
 २८७  
 २८८  
 २८९  
 २९०  
 २९१  
 २९२  
 २९३  
 २९४  
 २९५  
 २९६  
 २९७  
 २९८  
 २९९  
 ३००



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X, VIDEHA

२८९

२९०

२९१

२९२

२९३

२९४

२९५

२९६

२९७

२९८

२९९

३००

३०१

३०२

३०३

३०४

३०५

३०६

३०७



४ मास ४८ अंक १५ <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीमिह संस्कृतम्

३०३

३०४

३०५

३०६

३०७

३०८

३०९

३१०

३११

३१२

३१३

३१४

३१५

३१६

३१७

३१८

३१९

३२०

३२१



बि एन रु विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम ऐथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह' १५ म अंक ०१ दिसम्बर



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

मानसुंगिह

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA

::

::

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम ऐथिली पक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष



४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>  
**ISSN 2229-547X VIDEHA**

मानवीमिह संस्कृतम्

बि एन ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम ऐथिली पाक्षिक ई पत्रिका विदेह १५ म अंक ०१ दिसम्बर



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>  
संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA

मानसुमिह

१. विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
विदेह प्रथम ऐथिली पाक्षिक ई पत्रिका

२. विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ५० अंक

३. विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ५० अंक

४. विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक

५. विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक

६. विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीमिह संस्कृतम्

१. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

२. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

३. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

४. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

५. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

६. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

७. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

८. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

९. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

१०. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

११. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

मासुपिदिह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

१४ :

१५ : एतन्मते एतन्मते एतन्मते एतन्मते एतन्मते  
एतन्मते एतन्मते एतन्मते

१६ : एतन्मते एतन्मते एतन्मते एतन्मते एतन्मते  
आ एतन्मते एतन्मते

१७ : एतन्मते एतन्मते एतन्मते एतन्मते एतन्मते  
एतन्मते एतन्मते

१८ : एतन्मते एतन्मते एतन्मते एतन्मते एतन्मते  
एतन्मते एतन्मते एतन्मते एतन्मते एतन्मते

१९ : एतन्मते एतन्मते एतन्मते एतन्मते एतन्मते  
एतन्मते एतन्मते एतन्मते

२० : एतन्मते एतन्मते

२१ :

एतन्मते एतन्मते एतन्मते



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीमिह संस्कृतम्

.....

.....

२२ : .....

.....

२३ : .....

.....

२४ : .....

.....

२५ : .....

.....

.....

२६ : .....

२७ : .....

.....

२८ : .....

.....

२९ : .....

.....

३० : .....

.....



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X, VIDEHA

३१

१) ...

१. ७

...

२):

...

...

...

...

...

...

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम ऐथिली पात्रिकर 'विदेह' ९५ म अंक०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

गान्धीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

१ २ ३ ४ ५ ६

६९२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००







४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम यैथिती पक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम यैथिती पक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम यैथिती पक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम यैथिती पक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम यैथिती पक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष





४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

माथिली संस्कृत

ISSN 2229-547X VIDEHA

११ म मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

आँ  
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

१६ म मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष

१७ म मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

मासुभिह

खंखुमा, ISSN 2229-547X VIDEHA

पत्रिकाकार: डॉ. वि. पांडेय, बिहारी मिहिर, बिदेह  
उप-पत्रिकाकार: बिहारी मिहिर, बिदेह

३८ पत्रिकाकार: बिहारी मिहिर, बिदेह  
पत्रिकाकार: बिहारी मिहिर, बिदेह  
पत्रिकाकार: बिहारी मिहिर, बिदेह  
पत्रिकाकार: बिहारी मिहिर, बिदेह

३९ पत्रिकाकार: बिहारी मिहिर, बिदेह  
पत्रिकाकार: बिहारी मिहिर, बिदेह  
पत्रिकाकार: बिहारी मिहिर, बिदेह

२० पत्रिकाकार: बिहारी मिहिर, बिदेह  
पत्रिकाकार: बिहारी मिहिर, बिदेह  
पत्रिकाकार: बिहारी मिहिर, बिदेह

२१ पत्रिकाकार: बिहारी मिहिर, बिदेह  
पत्रिकाकार: बिहारी मिहिर, बिदेह  
पत्रिकाकार: बिहारी मिहिर, बिदेह

२२ पत्रिकाकार: बिहारी मिहिर, बिदेह  
पत्रिकाकार: बिहारी मिहिर, बिदेह





२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in> मासपत्रिका

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X, VIDEHA

३० नवम्बर २०११

३१ नवम्बर २०११

३२ नवम्बर २०११

३३ नवम्बर २०११

३४ नवम्बर २०११

३५ नवम्बर २०११

३६ नवम्बर २०११

३७ नवम्बर २०११

३८ नवम्बर २०११



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीय संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

- ३९ नवम्बर १९९९... विदेह... १९९९...
- ४० नवम्बर १९९९... विदेह... १९९९...
- ४१ नवम्बर १९९९... विदेह... १९९९...
- ४२ नवम्बर १९९९... विदेह... १९९९...
- ४३ नवम्बर १९९९... विदेह... १९९९...
- ४४ नवम्बर १९९९... विदेह... १९९९...
- ४५ नवम्बर १९९९... विदेह... १९९९...
- ४६ नवम्बर १९९९... विदेह... १९९९...
- ४७ नवम्बर १९९९... विदेह... १९९९...





२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in>

गान्धीविह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

४८ नवम्बर १९५९ मसस ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
 ४९ नवम्बर १९५९ मसस ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
 ५० नवम्बर १९५९ मसस ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
 ५१ नवम्बर १९५९ मसस ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
 ५२ नवम्बर १९५९ मसस ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
 ५३ नवम्बर १९५९ मसस ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>  
 ५४ नवम्बर १९५९ मसस ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>



४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

माथिलीमे संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

५५

५६

५७

५८

५९

६०

६१

६२

६३



२०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक १५) <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

**६४** ... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..

**६५** ... ..  
 ... ..  
 ... ..

**६६** ... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..

**६७** ... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..

**६८** ... ..  
 ... ..  
 ... ..

**६९** ... ..  
 ... ..  
 ... ..



मानवीयिह संस्कृत

४ मास ४८ अंक १५ <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

- ७० ...
- ७१ ...
- ७२ ...
- ७३ ...
- ७४ ...
- ७५ ...





४ मास ४८ अंक ९५ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह प्रथम यैथिती पक्षिक 'विदेह' ९५ म अंक ०१ दिसम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४८ अंक ९५) <http://www.videha.co.in> मानवीमिह संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA